



वार्षिक अहवाल 2020-2021

साधना सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर

मुख्य कार्यालय – दूसरा माला, दयानंद पार्क के पास, जरीपटका, नागपुर -४४००१४

Ph.No. 0712-2631358, 2631197 Website – www.sadhanabankngp.com



साधना सहकारी बैंक लि.

मुख्य कार्यालय: 504, दुसरा मंजला, दयानंद पार्क के पास, जरिपटका नागपुर - 440014

वार्षिक सर्वसाधारण सभा की सूचना

साधना सहकारी बैंक लि.नागपुर की 37 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा 29 सितंबर 2021 ब्रूधवार को शाम 4-00 बजे साधना सहकारी बैंक लि., नागपुर में On Line पद्धति से संपन्न होगी। COVID 19 की स्थिती को देखते हुए स्थानिय प्रशासन के निर्देशानुसार सभी अंशधारक/सभासद निम्न विषय सूची पर विचार विमर्श करने हेतु On Line पद्धति से समय पर उपस्थित रहें यह निवेदन। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हुई सभा उसी दिन उसी स्थान पर आधा घंटे देर से शुरू होगी ऐसी सभा में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती।

विषय सूची :

- 1) दिनांक 30 जनवरी 2021 को संपन्न 36 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा व 24 जुलाई 2021 को हुई विशेष सर्वसाधारण का वृत्तांत प्रस्तुत कर उसे पारित करना।
- 2) दिनांक 31-03-2021 को समाप्त आर्थिक वर्ष का संचालक मंडल द्वारा तैयार किये गये अहवाल का पठन कर उसे स्वीकृत करना।
- 3) वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वार्षिक प्रगति, लाभ-हानि पत्रक तथा संतुलन पत्रिका पारित करना।
- 4) वर्ष 2019-2020 के आर्थिक वर्ष के अंकेक्षण रिपोर्ट का संचालक मंडल द्वारा पारित किये गये अहवाल को स्वीकृत करना।
- 5) संचालक मंडल द्वारा अंशों (Shares) पर 5% लाभांश देने की सिफारिश तथा बैंक को हुए शुद्ध लाभ के प्रस्तावित विनियोजन को मान्यता प्रदान करना।
- 6) चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय व Capital Expenditure का अंदाज (Budgeted) पत्रक प्रस्तुत कर उसे पारित करना व वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय के अंदाज (Budgeted) पत्रक से अधिक हुए खर्च की पुष्टी करना।
- 7) वर्ष 2021-22 के लिये संवैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ती, फीस व अंतर्गत अंकेक्षणों (Internal / Con-current Audit) हेतु अंकेक्षकों (Auditors) की संचालक मंडल द्वारा की गई नियुक्ति की पुष्टी करना।
- 8) दिनांक 31-03-2021 को समाप्त आर्थिक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पर विचार करना व स्वीकृत करना।
- 9) संस्था के 36 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा में उपस्थित न होने वाले सभासदों की अनुपस्थिती को मंजुरी देना।
- 10) माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमती से प्रस्तुत अन्य विषयों पर चर्चा।

नोट: जिन सभासदों को उपरोक्त विषय पर कुछ सुझाव व जानकारियों लेनी हो तो वे कृपया लेखी स्वरूप में या बैंक के ई-मेल आयडी sadhanabankho@gmail.com पर दि. 21-09-2021 तक भेजने की कृपा करें। उसके बाद आने वाले सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15/09/2021

संचालक मंडल के आदेशानुसार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(अतिरिक्त कार्यभार)

विशेष सूचना

- 1) जिन मा.सदस्यों ने अपना हकदार (नॉमिनी) नियुक्त न किया हो तो वे यह कार्यवाही मुख्य कार्यालय में आकर पूर्ण करें।
- 2) जिन मा.सदस्यों का पंजीकृत पता बदला हो तो वे उसकी लिखित जानकारी मुख्य कार्यालय में अवश्य दें।
- 3) बैंक के उपविधीनुसार 2017-18 की लाभांश राशि सभासदों ने लाभांश पत्र पर अंकित दिनांक से तीन वर्ष अर्थात दिनांक 31-12-2021 तक उठाना आवश्यक है, अन्यथा नियमानुसार यह राशि बैंक के रिजर्व फंड में जमा कर दी जायेगी।
- 4) जिन मा. सदस्यों ने अपने अंश प्रमाणपत्र (Share Certificate) प्राप्त नहीं किये हैं वे संबंधित शाखा/मुख्य कार्यालय से अंश प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- 5) नियमानुसार KYC (केवायसी) अनिवार्य हो चुका है, जिन अंशधारकों ने केवायसी जमा नहीं किये हैं, उन्हें तुरंत मुख्य कार्यालय में जमा करवायें।
- 6) सभी अंशधारकों को पॉच साल में कम से कम एक बार आम सभा में उपस्थित रहना अनिवार्य है अन्यथा उनकी एक्टिव मेंबर की सदस्यता रद्द की जा सकती है।

बैंक का वर्तमान संचालक मंडल

अनु . क्रं	नाम और पत्ता	पद	मोबाइल नं .
१	श्री. घनश्याम .एच. कुकरेजा ९१ / ९२, कुकरेजा निवास, जरीपटका, नागपुर-१४.	अध्यक्ष	९३७२३३००००१
२	अँड . श्री. विनोद डी. लालवानी फ्लैट नंबर सी-५०१ हाइट्स.पी.जे., ५ वीं मंजिल, बैरामजी टाउन, नागपुर	उपाध्यक्ष	९८२३०८६८३४
३	श्री. आवतराम. बी. चावला १२१ , चावला भवन , बखतमल चावला मार्ग , जरीपटका ,नागपुर	संचालक	९४२२११४२३१
४	श्री. भोजराज (पप्पुभाई) टी. केवलरमानी ९५ – ९६ , कुकरेजा नगर, जरीपटका, नागपुर- १४	संचालक	९८२२९२९८५६
५	श्री. अशोक .बी.विरवानी प्लॉट नंबर ११७, जरीपटका, नागपुर- १४	संचालक	९२०९०५८१२२ ९८२६२७३७४८
६	श्रीमती. प्रियंका .यू.पंजवानी प्लॉट नंबर १८ – १९, 'सूर्योदय' रियल पटेल लेआउट, रिंग रोड, जरीपटका, नागपुर- १४	संचालिका	९०२८००२२३८
७	डॉ . श्री. विंकी एम. रुधवानी २२ , सिंधु नगर, जरीपटका नागपुर- १४	संचालक	९३७३१०७१४१
८	श्री. किशनलाल. एच. रामनानी प्लॉट नंबर ५० बैंक कॉलोनी ,जरीपटका नागपुर- १४	संचालक	९३२५५३९०६० ९३२५४७१२०४
९	श्री. किशन. पी. असुदानी प्लॉट नंबर ६७९ हेमू कॉलोनी चौक जरीपटका नागपुर- १४	संचालक	९८२३१९२८०२ ९३७२६४८६७८
१०	श्रीमती. उषाकिरन. एस. शर्मा प्लॉट नंबर १७२ कस्तूरबा नगर गली नंबर ४ जरीपटका नागपुर - १४	संचालिका	९८८१०८२६०६
११	डॉ . श्री. विजय. एस. गौर ओम आसरा सदन हंसापुरी खदान, नागपुर	संचालक	९९२३४५८८८२
१२	श्री.वीरेंद्र .जे .आहूजा प्लॉट नंबर १५ , कुंगु कॉलोनी,समाधा आश्रम के पास, जरीपटका नागपुर -१४	संचालक	९८२३०४०९७०
१३	श्रीमती. निर्मला. बी. खुबचंदनी ब्लॉक नंबर १४ -बी महात्मा गांधी स्कूल के पास, जरीपटका-नागपुर- १४	संचालिका	९८२३०८८९६९
१४	श्री. संतोष .ए . डेम्बला ६६ कुकरेजा नागर, जरीपटका , नागपुर- १४	संचालक	९३७११११७३५
१५	श्री. श्रीकांत .एस. डोंगरे कडबी बाजार, १८ चांभार नाला, गुरुनानकपुरा, नागपुर-१४	संचालक	९२०९०३३३३३
१६	अँड . श्री. श्रीचंद . जी. चावला १२०, चावला भवन ,जरीपटका नागपुर-१४	संचालक	९४२२०९०५५० ९३७३८६११७५
१७	श्री. अशोक .आर. बंसोड प्लॉट क्रमांक - ६०/ ब लाल स्कूल के पास, बेज्जोनबाग , नागपुर-१४	सह संचालक	९३२६८१३८६६
१८	श्री. रमेश . डी . इंगले	कर्म. प्रतिनिधि	९८२२९३४२८१
१९	श्री . विजय .एस. भोंसले	कर्म. प्रतिनिधि	८२७५८६७४४४
२०	श्रीमती . सोना . आर. बुधवानी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	९८८१३८००२७



साधना सहकारी बैंक लि.

मुख्य कार्यालय: 504, दुसरा मंजला, दयानंद पार्क के पास, जरिपटका नागपुर - 440 014

गत तीन वर्ष के आंकड़े

		31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021
1	अंश पूँजी	409.96	443.52	479.25
2	जमा पूँजी	13222.50	13619.70	15552.84
3	वितरीत कर्ज	8454.09	8691.51	10378.71
4	संदस्य संख्या	9076	9180	9150
5	शुद्ध लाभ	71,11,398.45	37,33,043.26	47,18,120.18

अंश पूँजी:

31 मार्च 2020 को बैंक की कुल सदस्य संख्या 9180 तथा अंशपूँजी रु. 443-51 लाख थी। अब 31-03-2021 को कुल सदस्य यंख्या 9150 तथा अंशपूँजी रु. 479-25 लाख हो गई हैं। इस वर्ष अंशपूँजी रु. 35-74 लाख से बढ़ी हुई हैं।

जमा पूँजी:

गतवर्ष बैंक की जमापूँजी रु. 13619-70 लाख थी, वह बढ़कर रु. 15552-84 लाख हुई हैं। यह बढ़त रु. 1933-14 लाख हैं। जो कि 14.19% से अधिक हैं।

निवेश :

दि. 31 मार्च 2020 का बैंक का कुल निवेश जो रु. 4597-03 लाख था वह बढ़कर दि. 31-03-2021 को रु.4793-74 हो गया है।

सरकारी प्रतिभुतियों में विनियोग:

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार हमारी बैंक का एन.डी.टी.एल. का 18% सरकारी प्रतिभुतियों में निवेश करना आवश्यक है। बैंक ने यह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। 31 मार्च 2021 तक सरकारी प्रतिभुतियों में कुल निवेश रु. 2812-31 लाख हैं जो की एन.डी.एल का 19-33% हैं।

वितरीत कर्ज़:

बैंक का वितरीत कर्ज जो 31 मार्च 2020 को रु. 8691-51 लाख था। इस वर्ष वृद्धिगत होकर रु. 10378-71 लाख हो गया है। जो कि 19-41 अधिक हैं। समाज के सभी वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण की सुविधा की गई हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम:

समाज के आर्थिक वृष्टि से कमजोर वर्ग के सदस्यों को आर्थिक समहायता देकर बैंक ने उनकी उन्नती के लिए अपना योगदान दिया है। इस योजना के अंतर्गत बैंक ने इस आर्थिक वर्ष में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करवाया है, जो कुल वितरीत कर्ज के अनुपात में 58.57% हैं व भारतीय रिजर्व बैंक के मानक दर से 40% अधिक हैं, जिसमें परिवहन चालक, छोटे व्यापारी, महिलाएं, लघुउद्योग, वैद्यकिय व्यवसायी, चर्मकार, कारीगर, गृहनिर्माण आदि कार्य के लिए दिए कर्ज सम्प्लित हैं।

थकित कर्ज़:

31 मार्च 2020 को समाप्त आर्थिक वर्ष में बैंक की थकित कर्ज राशि रु. 395-94 लाख थी वह घटकर 31 मार्च 2021 रु. 311-00 लाख हैं जो कि कर्ज राशि के अनुपात में 3% हैं। जिन मा. सदस्यों की तरफ थकित कर्ज बाकी हैं उनसे मेरी प्रार्थना हैं कि थकबाकी का भुगतान जल्द करें तथा बैंक की प्रगति में सहकार्य दें।

एनपीए:

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में बैंक का कुल एन.पी.ए रु. 480-58 लाख 5.53% और शुद्ध एन.पी.ए रु. 294-55 (3.46%) लाख था, वह अहवाल वर्ष में रु. 395-80 (3.81%) लाख और शुद्ध एन.पी.ए रु. 179-77 लाख (1.77%) हैं।

कार्यशील पूँजी 31 मार्च 2020 को समाप्त आर्थिक वर्ष में बैंक की कार्यशील पूँजी रु. 15227-26 लाख थी जो 31 मार्च 2021 को बढ़कर रु. 17262-81 हुई हैं। इस प्रकार अहवाल वर्ष में रु. 2033-55 लाख की वृद्धि हुई हैं।

कॉपिटल एकेवेसी रेशो : (CRAR Ratio) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत हमारी बैंक का न्युनतम सीआरएआर 9% अपेक्षित हैं। 31 मार्च 2021 को हमारी बैंक का सीआरएआर 13-39% हैं।

शाखाओं की जमा व कर्ज स्थिती

शाखा	जमा (Deposits)		कर्ज (Advances)	
	2019	2020	2020	2021
जरिपटका	9400.18	10643.44	3602.38	4295.78
गांधीबाग	1993.01	2288.11	2128.16	2644.31
अपोध्यानगर	711.09	755.31	685.57	788.71
मस्कासाथ	989.37	1307.63	1192.37	1464.85
वाडी	526.05	558.05	1083.03	1185.05
कुल	13619.70	15552.84	8691.51	10378.70



साधना सहकारी बैंक लि.

मुख्य कार्यालय: 504, दुसरा मंजला, दयानंद पार्क के पास, जरिपटका नागपुर - 440 014

Agenda No. 5

शुद्ध लाभ का विनियोजन

बैंक की आर्थिक वर्ष 2020-2021 में शुद्ध लाभ रु. 47,18,120.18 हुआ इस संबंध में Maharashtra State Co-op Societies Act 1960 की धारा 65 के निर्देशानुसार शुद्ध लाभ का विनियोजन (Appropriation) करना अनिवाय होने से Bye Laws के अनुसार विनियोजन किया गया है। जो कि निम्न अनुसार आपकी स्वीकृती हेतु प्रस्तुत है साथ ही सभासदों को लाभांश 5% देने हेतु निर्णय लिया गया है कृपया मंजुर करें।

Out of Current Year Profit (March 2021)		
1	वैद्यानिक संचिती (Statutory Reserve Fund) (शुद्ध लाभ का 25%)	11,79,530.00
2	अतिरिक्त वैद्यानिक निधि (Additional Statutory Fund) (शुद्ध लाभ का 10%)	4,71,812.00
3	लाभांश देने के लिये प्रावधान @ 5%	22,36,360.00
5	समाज कल्याण (Social Welfare Fund) (शुद्ध लाभ का 2%)	94,362.00
6	चुनाव निधि (Election Fund) पिछले चुनाव के खर्च का 1/5 (1/5 th of Last Preceding Election)	0.00
7	Staff Welfare Fund (शुद्ध लाभ का 1%)	47,181.00
8	शैक्षणिक निधि (संचालक व कर्मचारियों कि लिय) (Education Fund @ 10% of Balance of Profit) (5% Or more but less than 10%)	0.00
9	Technological Development Fund @ 10% of Balance of Profit	0.00
10	इमारत निधि (Building Fund)	6,88,875.18
	Total	47,18,120.18

आकर्षक सेवाएँ

1. IDBI Bank के माध्यम से सभी बैंकों के ATM का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके द्वारा पुरे देश में कहीं पर भी Rupay Debit Card इस्तेमाल की सुविधा ग्राहकों को कराई गई है।
2. घर कूल योजना के अंतर्गत वाहन कर्ज व मकान खरीदी के लिए Repayment हेतु Daily Collection सुविधा उपलब्ध है।
3. नये मकान खरीदी या निर्माण (Purchase/Construction) हेतु अधिकतम कर्ज रु. 70 लाख तक की सुविधा उपलब्ध है।
4. मकान दुरुस्ती के लिए रूपये 5,00,000 तक की सुविधा है।
5. स्वर्ण आभूषण पर 8% कि दर पर कर्ज सुविधा उपलब्ध है।
6. स्वर्ण आभूषण पर Overdraft सुविधा भी उपलब्ध है।
7. दैनिक जमा राशी के खातेदारों को कर्ज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
8. नशनल सेलिंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉज़िट रसीद, किसान विकास पत्र तथा जीवन बीमा पॉलिसी की Surrender Value पर कर्ज सुविधा उपलब्ध है।
9. ग्राहकों को रु. 5,00,000/- (रु. पाच लाख) तक डिपॉज़ीट DICGC के बीमा पॉलिसी के तहत सुरक्षित है। 31 मार्च 2021 तक की जमा होनेवाली राशी के अग्रीम प्रिमियम का भुगतान DICGC को नवबर 2020 को कर दिया है।
10. जरीपटका तथा अयोध्या नगर शाखा में लॉकर्स सुविधा है।
11. विभिन्न बैंकों के माध्यम से ग्राहकों को देशभर में तुरंत At Par Cheque / Drafts / RTGS / NEFT की मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तथा RTGS / NEFT के लिए Host to Host सुविधा उपलब्ध की गई है।
12. ग्राहकों को विभिन्न सुचनाओं के लिए SMS द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएँ भेजी जाती है।
13. बैंक में CBS प्रणाली लागू होने से बैंक ग्राहक खातेदार उनमें से किसी भी शाखा से व्यवहार कर सकते हैं। तथा Clearning चेक भी जमा कर सकते हैं।
14. विभिन्न कंपनीयों के माध्यम से POS Machine सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
15. नगद ऋण खातों में बिना शुल्क At Par Cheques खाते के माध्यम से दिये जाते हैं।
16. Mobile Banking, ECS Credit सेवा उपलब्ध है।
17. महिला सभासद/ग्राहकों के लिए शैक्षणिक कर्ज 0.50%व गृह कर्ज में वर्तमान में लागू दर से 0.25% की छूट कि सहुलियत दी गई है।



साधना सहकारी बैंक लिमिटेड

मुख्य कार्यालय प्लाट नं. 504, दुसरा मंजला, दंयानंद पार्क के पास, जरीपटका, नागपुर
नागपुर - 440014 दुर्घनी/फॉक्स कं : 2631197, 2631358

श्रद्धाजली

गतवर्ष सर्वसाधारण सभा के पश्चात भारत के नेताओं, संशोधकों, तत्रज्ञों, कलावंतो, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सभासदों, खातेदारों को बैंक की ओर से विनम्र श्रद्धाजली, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

आभार :

बैंक के समय -समय पर जो मार्गदर्शन तथा सहयोग मिलता रहा है, उसके लिये मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र शासन, भारतीय रिजर्व बैंक, मुबई तथा श्रेत्रीय कार्यालय, नागपुर के अधिकारी वर्ग, विदर्भ अर्बन बैंक को ऑप असोसिएशन नागपुर, जिल्हा सहकारी बैंक लि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि, अर्बन बैंक को ऑप फेडरेशन मुबई सहकार विभाग के अधिकारियों, HDFC Bank Ltd, IDBI Bank Ltd, Oriental Bank of Commerce, ICICI Bank, Yes Bank, Axis Bank & Saraswat Bank इत्यादि के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बैंक के अमानतदारों ऋणधारकों तथा अन्य ग्राहकों द्वारा प्राप्त सदभावना एवं सहयोग के लिये ह्लदय से आभारी हूँ। मैं उन सभी संस्थाओं तथा उनके अधिकारियों एवं व्यक्तियों का भी आभारी हूँ जिन्होने हमारी बैंक की निरंतर प्रगती में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग दिया है। मैं बैंक के सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा दिये गये योगदान एवं किये गये परिश्रम के लिये उनका धन्यवाद करता हूँ तथा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि, बैंक के कर्मचारीगण आनेवाले वर्षों में भी और अधिक निष्ठा, लग्न, ईमानदारी एवं दक्षतापूर्वक कार्य करते हुये बैंक के बढ़ाने के लिये प्रयास जारी रखेंगे। बैंक के लेखा परीक्षण का कार्य संपादन करने के लिये चार्टड अकांउटंड तथा अधिकारियों का मै आभारी हूँ। बैंक का लेखा परीक्षण नागपुर द्वारा किये गये लेखा परीक्षण का कार्य अत्यंत कुशलतापूर्वक संपादन के लिये मै ह्लदय से आभारी हूँ।

अतः मैं बैंक की 37 वीं वार्षिक सभा में भाग लेनेवाले समस्त अंशधारक भाईयों और बहनों के प्रति, मेरी ओर से संचालक मंडल की ओर से तथा शहरी बैंक परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग, समर्थन एवं संरक्षण इन्हीं सदभावनाओं के साथ प्राप्त होता रहेगा।

धन्यवाद

नागपुर

संचालक मंडल की ओर से

दिनांक 29-09-2021

घनश्याम कुकरेजा
अध्यक्ष
साधना सहकारी बैंक लि.

SADHANA SAHAKARI BANK LTD., NAGPUR

1

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2021.

Particulars	Schedule	AS on 31/03/2021 Current Year	AS on 31/03/2020 Current Year
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	4,79,25,450.00	4,43,51,575.00
Reserve and Surplus	2	10,65,30,677.76	10,27,72,948.58
Deposits	3	155,52,83,963.70	1,36,19,70,515.76
Other Liabilities & Provisions	4	1,65,41,174.51	1,36,30,903.64
TOTAL		1726281265.97	1,52,27,25,942.98
ASSETS			
Cash and Balance With RBI	6	17095932.22	30186561.04
Balance with Banks	7	111397386.68	87560082.00
Investments	8	479374080.00	459702507.00
Advances	9	1037870791.22	869150625.42
Fixed Assets	10	64610353.23	60556741.90
Other Assets	11	15932722.62	15569425.62
TOTAL		1726281265.97	1522725942.98
Contingent Liabilities			
Bank Guarantee	12		
		2,00,000.00	48,36,568.00
Amount Transferred to RBI ---DEAF A/c	18	40,04,583.98	37,01,563.65
TOTAL		42,,04,583.98	1,17,37,751.65
OBC Bills for Collection (As per contra)			2,42,560.00
Overdue Interest Reserve (As per contra)			4,33,03,375.00
			4,34,81,298.00

For Sadhana Sahakari Bank Ltd.,

G.H. Kukreja
Chairman

V.D.Lalwani
Vice Chairman

A.B. Chawla
Director

Place:- Nagpur

Date: 31/08/2021

S. R. Budhwani
Chief Executive Officer
(Additional Charge)

*For M/s Kamlesh Gehani & Co
(Chartered Accountants)
(Internal Auditor)*

*For M/s CMK & Associates
Chartered Accountant
Kapil Chandwani (Partner)
Statutory Auditors*

PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH 2021.

Particulars	Schedule	AS on 31/03/2021 Current Year	AS on 31/03/2020 Current Year
A. INCOME			
Interest Earned	13	14,38,78,490.32	13,50,65,486.32
Other Income	14	1,53,30,169.20	1,33,94,439.09
TOTAL		15,92,08,659.52	14,84,59,925.41
B. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	7,84,73,465.80	7,65,28,622.23
Operating Expenses	16	7,08,37,470.54	6,08,11,806.92
Provisions & Contingencies	17	51,79,603.00	73,86,453.00
TOTAL		15,44,90,539.34	14,47,26,882.15
C. PROFIT AND LOSS			
Net Profit / Loss for the year		47,18,120.18	37,33,043.26
Profit / Loss brought forward			
TOTAL		47,18,120.18	37,33,043.26

*For Sadhana Sahakari Bank Ltd.,*G.H. Kukreja
*Chairman*V.D.Lalwani
*Vice Chairman*A.B. Chawla
Director

Place:- Nagpur

Date: 31/08/2021

S. R. Budhwani
Chief Executive Officer
(Additional Charge)For M/s Kamlesh Gehani & Co
(Chartered Accountants)
(Internal Auditor)For M/s CMK & Associates
Chartered Accountant
Kapil Chandwani (Partner)
Statutory Auditors

SCHEDULES		3	
PARTICULARS		AS on 31/03/2021 Current Year	AS on 31/03/2020 Current Year
SCHEDULE 1. CAPITAL			
Authorised Capital		5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
Subscribed Issued & Paid up Capital (Shares of Rs.25/- each) TOTAL			
Opening Balance		44351575.00	40995950.00
Additions during the year		6581475.00	5252300.00
Deduction during the year		3007600.00	1896675.00
		47925450.00	44351575.00
SCHEDULE 2. RESERVES & SURPLUS			
A) Statutory Reserves			
Opening Balance		29155704.84	26894652.84
Additions during the year		1015955	2261052.00
	TOTAL	30171659.84	29155704.84
B) General Reserve Fund			
Opening Balance		1173385.00	1084520.00
Additions during the year		68445.00	88,965.00
Deduction during the year		0.00	100.00
	TOTAL	1241830.00	1173385.00
C) Building Fund			
Opening Balance		32402504.98	25137308.53
Additions during the year		1195860.26	7265196.45
	TOTAL	33598365.24	32402504.98
D) Dividend Equalisation Fund			
Opening Balance		10,73,370.00	10,73,370.00
	TOTAL	10,73,370.00	10,73,370.00
E) Reserve for Bad & Doubtful Debts			
Opening Balance		1,86,03,231.00	1,46,03,231.00
Additions during the year		40,00,000.00	40,00,000.00
Deduction during the year		10,00,000.00	0.00
	TOTAL	2,16,03,231.00	1,86,03,231.00
F) Contingent Provision Against Standard Assets.			
Opening Balance		33,00,000.00	33,00,000.00
Addition during the year		6,60,000.00	0.00
	TOTAL	39,60,000.00	33,00,000.00
G) Charity Public Welfare Fund			
Opening Balance		4,922.00	65,497.00
Addition during the year		0.00	1,42,228.00
Deduction during the year		4,000.00	2,02,803.00
	TOTAL	922.00	4,922.00
H) Investment depreciation Reserve A/c			
Opening Balance		85,95,000.00	93,09,500.00
Addition during the year		90,000.00	-
Deduction during the year		36,53,000.00	7,14,500.00
	TOTAL	50,32,000.00	85,95,000.00

PARTICULARS	<i>AS on 31/03/2021 Current Year</i>	<i>AS on 31/03/2020 Current Year</i>	4
I) Staff Welfare Fund			
Opening Balance	71,114.00	0.00	
Addition during the year	0.00	71,114.00	
Deduction during the year	0.00	0.00	
	71,114.00	71,114.00	
J)Share Holders Welfare Fund			
Opening Balance	25,067.00	25,067.00	
Additions during the year	0.00	0.00	
Deduction during the year	23,912.00	-	
	1,155.00	25,067.00	
K) Reserve for Bad & Doubtful Investment			
Opening Balance	10,000.00	10,000.00	
Additions during the year	0.00	0.00	
Deduction during the year	0.00	0.00	
	10,000.00	10,000.00	
L)Investment fluctuation Reserve			
Opening Balance	50,000.00	5,00,000.00	
Additions during the year	0.00	0.00	
Deduction during the year	0.00	4,50,000.00	
	50,000.00	50,000.00	
N)Technological Development Fund			
Opening Balance	1,02,143.00	8,34,940.00	
Additions during the year	0.00	1,86,483.00	
Deductions during the year	0.00	9,19,280.00	
	1,02,143.00	1,02,143.00	
O)Education Fund			
Opening Balance	95,443.50	7,47,230.50	
Additions during the year	0.00	2,07,203.00	
Deductions during the year	-	8,58,990.00	
	95,443.50	95,443.50	
P) Additional Statutory Fund			
Opening Balance	40,26,390.00	33,15,250.00	
Additions during the year	3,73,304.00	7,11,140.00	
Deductions during the year	0.00	0.00	
	43,99,694.00	40,26,390.00	
Q)Election Fund			
Opening Balance	3,51,630.00	3,01,630.00	
Additions during the year	50,000.00	50,000.00	
Deductions during the year	0.00	0.00	
	4,01,630.00	3,51,630.00	
R)Profit & Loss A/c			
Opening Balance	37,33,043.26	71,11,398.45	
Additions during the year	47,18,120.18	37,33,043.26	
Deductions during the year	37,33,043.26	71,11,398.45	
	47,18,120.18	37,33,043.26	

PARTICULARS	AS on 31/03/2021 Current Year	AS on 31/03/2020 Previous Year
TOTAL (A to R)	10,65,30,677.76	10,27,72,948.58
SCHEDULE 3. DEPOSITS		
A - Demand Deposits		
a) Current Deposits	12,87,44,883.79	9,71,59,484.77
b) Credit Bal. in Loans, Cash Credit & Overdraft	88,35,723.87	73,13,982.60
c) Time Deposit Matured but not paid	7,44,293.00	9,69,636.00
B- Saving Bank Deposits	45,74,77,648.87	36,81,01,924.42
C - Term Deposits / Fixed/ Recurring Deposits	95,94,81,414.17	88,84,25,487.97
TOTAL	155,52,83,963.70	136,19,70,515.76
SCHEDULE 4. OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
A.Bills Payable	25,61,204.44	37,10,417.24
B.PF Payable	6,09,620.00	11,07,515.00
C. Interest Accrued Payable	36,40,638.00	17,33,785.23
E. Sundry Creditors	23,61,079.17	8,20,540.17
F. Provision for Audit Fee	5,81,550.00	5,50,800.00
I . Nominal Member fees	1,23,990.00	1,25,855.00
J. Provision for Dispute with M.S.Co.op Ik	1,18,256.00	1,18,256.00
K. Expenses Accured and Payable	10,76,833.00	4,99,687.00
N-Kotak Mahindra Chq Payable Ac	41,613.00	41,613.00
O. Unclaimed Dividend	2018-2019	18,18,691.00
	2017-2018	1,555.00
	2016-2017	0.00
P. Provision for Fraud	2,50,011.00	6,60,000.00
Q. GST Payable	4,98,227.22	11,54,508.72
R OD A/c Jaripatka Branch	4,15,137.68	7,46,329.28
S. Profeesional Tax Payable	10,800.00	11800.00
T.HDFC chq Payable a/c	2,000.00	2000.00
U.Providend Fund Payable A/c	0.00	
V.Provision For Group Gratuity	10,00,000.00	
W.Provision For Leave Encashment	10,00,000.00	
X.Corporation Tax Payable A/c	40,536.00	
Y.Exgratia Loan Int Suspense A/c	1,00,071.00	
Aa.Cr Bal Tax Deducted At Source	2,89,362.00	
Ab. Share Application Money Recd		15750.00
TOTAL (A To Aa)	1,65,41,174.51	13630903.64
SCHEDULE 6 : CASH & BALANCE WITH RBI		
Cash in Hand	16834426.12	29925054.94
Balance with RBI in Current Account	261506.10	261506.10
TOTAL	17095932.22	30186561.04
SCHEDULE 7 : BALANCE WITH BANKS		
Balance with Banks- In Current Account		
a. M. S. Co-op Bank Nagpur	1,64,072.87	3,16,379.57
b. Nagpur Dist. Central Coop Bank	16,427.35	2,95,637.35
c. RTGS Payment with IDBI Bank	88,91,249.44	1,49,29,925.32
d. IDBI Bank. Nagpur Current A/c	3,49,18,306.50	2,24,68,850.22
e.IDBI Call Money	-	6,974.00
f. OD A/c with Oriental Bank of Commerce commerce	8,79,671.86	1,04,163.30

PARTICULARS	AS on 31/03/2021 Current Year	AS on 31/03/2020 Current Year
g. HDFC Bank, Nagpur SGLA/c	3,98,894.20	14,75,605.51
h. Saraswat Coop Bank , ltd..	23,99,696.10	99,882.00
i. Yes Bank (Jaripatka Br)	72,119.70	70,578.70
j. ICICI Bank (Ho,Ayo,Wadi)	2,12,106.22	1,95,588.72
k.IDBI CLG Settlement A.c (HO)	1,16,22,146.91	2,05,14,025.00
l IDBI Bank Ngp O/D A/C	41,371.79	56,439.49
m. ATM SETTELMENT A/C (IDBI)	82,17,385.64	1,16,51,296.63
n.AXIS BANK LTD.	1,19,50,011.00	5,60,000.00
o.Yes Bank IMPS Account	43,16,583.38	26,47,126.00
p.Bank Of Maharashtra	2,40,55,764.00	
q.RTGS Collection With IDBI Bank	32,41,579.72	12167610.19
r.Dr Bal in OVERDRAFT A/C WITH IDBI	0.00	
TOTAL	11,13,97,386.68	87560082.00
SCHEDULE 8. INVESTMENTS in india		
Government Securities	26,64,24,500.00	25,48,90,000.00
a. Investment in GOI (HTM) 26,64,24,500.00		
Face Value - 22,50,00,000 Book value -		
b. Investment GOI (Other than HTM)		
Face Value ----- Market Value ----- Book value		
c. Investment in Treasury Bill 1,98,38,580.00	1,98,38,580.00	
Shares & Bonds	11,000.00	11,000.00
U.T.I.Mutual Fund / ICICI Mutual Fund/ BOB Mutual Fund	1,01,00,000.00	2,25,00,000.00
Deposits (FDR)		
1. Nagpur Dist. Cent. Coop. Bank	38,00,000.00	48,70,00,000
2. Saraswat Co-operative Bank, Ltd	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
3. Thane Janta Sahakari Bank ltd, Nagpur	1,50,00,000.00	50,00,000.00
4. IDBI Bank Ltd.,	1,80,00,000.00	1,80,00,000.00
5. Nagpur Nagrik Sahakari Bank Ltd.	1,00,00,000.00	0.00
6. Yes Bank	0.00	4,02,00,000.00
7. Dombiwali Nagari Sahakari Bank	0.00	69,31,507.00
8. Indusind Bank	5,47,00,000.00	5,47,00,000.00
9. Equitas Small Finace Bank	1,00,00,000.00	0.00
10.Suryoday Small Finance Bank Ltd	1,00,00,000.00	0.00
11. Oriental Bank of Commerce	2,40,00,000.00	2,40,00,000.00
12. Shyamrao Vithal Co-op Bank	1,50,00,000.00	60,00,000.00
13. RBL Bank Ltd.	1,00,00,000.00	0.00
14.ICICI Bank	25,00,000.00	1,26,00,000.00
TOTAL (1 +3)	47,93,74,080.00	45,97,02,507.00
SCHEDULE 9. LOANS & ADVANCES		
a. Cash Credits, Overdrafts and Demand Loans,	61,29,31,107.39	51,76,70,649.51
c. Term Loan	42,49,39,683.83	35,14,79,975.91
TOTAL	103,78,70,791.22	86,91,50,625.42
a. Secured Loan	99,25,16,101.00	82,15,19,923.83
b. Unsecured Loan	4,53,54,690.22	4,76,30,701.79
TOTAL	103,78,70,791.22	86,91,50,625.42
TOTAL (A = B)	103,78,70,791.22	86,91,50,625.42

		7
PARTICULARS	AS on 31/03/2021 Current Year	AS on 31/03/2020 Previous Year
SCHEDULE 10: FIXED ASSETS (Furniture & Fixtures)		
a. Land at cost	426000.00	4,26,000.00
b. Building	41818676.40	32609220.50
Additions during the year	5362213.40	964,204.90
Deduction During the year	25000.00	-
Depreciation Charged	4715588.98	432619.00
Total (b)	42440300.82	41818676.40
TOTAL a +b)	42866300.82	4,22,44,676.40
c. - Other Fixed Assets (Including Furniture & Fixtures) as on 31 st March of the preceding year. (Depreciated Value)	18312065.50	7439627.11
Additions during the year	15878065.83	14059526.62
Deductions during the year	8059466.45	75502.07
Depreciation Charged	4386612.47	3111586.16
TOTAL	21744052.41	18312065.50
TOTAL (a to c)	64610353.23	6,05,56,741.90
SCHEDULE 11. OTHER ASSETS		
a. Interest Accured (Receivable)	99,32,736.71	88,41,928.00
b. Stock of Stationery	6,72,624.15	6,85,072.39
c. Other Assests	30,11,913.76	23,30,327.97
d. Advance Tax	81,690.00	81,690.00
e. Stock of Pan Service Coupons	41,552.00	41552.00
f. Premium on GOI Security (HTM)	18,14,206.00	20,58,218.00
g. Advance Rent (Landlord)	3,78,000.00	3,78,000.00
h. DEAF Fund	0.00	11,46,413.26
	1,59,32,722.62	15569425.62
SCHEDULE 12. CONTINGENT LIABILITIES		
Guarantees given on behalf of constituents		
a. In India	2,00,000.00	48,36,568.00
b. Outside India		
TOTAL	2,00,000.00	48,36,568.00
SCHEDULE 13. INTEREST EARNED		
a. Interest on Advances	10,39,73,947.95	9,81,80,417.73
b. Income on Investment	2,03,48,169.04	1,80,36,852.14
c. Interest on Govt. Security	1,95,56,373.33	1,88,48,216.45
TOTAL	14,38,78,490.32	13,50,65,486.32
SCHEDULE 14 OTHER INCOME		
a. Commission & Exchange Received	37,687.43	1,17,090.31
b. Commission on Bank Guarantee	0	40845.34
c. Profit on Sale of Govt Security	37,45,500.00	19,30,500.00
d. Other	1,11,36,992.77	1,13,06,003.44
e. Provision On Fraud	4,09,989.00	
TOTAL	1,53,30,169.20	1,33,94,439.09
SCHEDULE 15. INTEREST EXPENDED		
a. Interest on Deposits	7,84,73,465.80	7,63,85,763.23
b. Interest on Bank Borrowing	0.00	1,42,859.00
TOTAL	7,84,73,465.80	7,65,28,622.23

स्वतंत्र लेखापरीक्षक अहवाल

च्या साधना सहकारी बँक लि.नागपूर

सदस्य,
साधना सहकारी बँक लिमिटेड,
जरीपटका, नागपूर - 440014.

आर्थिक स्टेटमेंटचा अहवाल

1. आम्ही साधना सहकारी बँक लि.नागपूर चे आर्थिक स्टेटमेंटचे ॲडिट केले आहे. साधना सहकारी बँक लिमिटेड 31 मार्च 2021 पर्यंत, ज्यात 31 मार्च 2021 मधील ताळेबंद, नफा आणि तोटा खात्याचे विवरण, संपलेल्या वर्षासाठी रोख प्रवाह विवरण आणि महत्वपूर्ण लेखा धोरणांचा सारांश आणि इतर स्पष्टीकरणात्मक माहिती यांचा समावेश आहे. आमच्याकडून ॲडिट केलेल्या मुख्य कार्यालयाचे रिटर्न आणि त्याच्या 5 शाखांचे विवरण या आर्थिक स्टेटमेंटमध्ये समाविष्ट केले आहे.

आर्थिक स्टेटमेंटसाठी व्यवस्थापनाची जबाबदारी

2. बँकिंग रेग्युलेशन्स अॅंकट १९४९ (सहकारी सोसायट्यांना लागू आहे) नुसार आर्थिक स्थिती, आर्थिक कामगिरी आणि बँकेच्या रोख प्रवाहाचा खरा आणि निष्पक्ष दृष्टिकोन देणारी ही आर्थिक स्टेटमेन्ट तयार करण्यासाठी व्यवस्थापन जबाबदार आहे. भारतीय रिझार्व बँकने जारी केलेले मुददे आणि नॅशनल बँक ॲफ अंग्रीकल्चर ॲड रुरल डेव्हलपमेंट, सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अॅंकट 1960, महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६१, (लागू आहे) आणि सामान्यतः स्वीकारलेले लेखा तत्वे भारतात आतापर्यंत बँकेला लागू आहे. फसवणूक किंवा त्रुटीमुळे, आर्थिक गैरसमजांपासून मुक्त आर्थिक विवरण तयार करण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रण संबंधित रचना, अंमलबजावणी आणि देखभाल यांचा समावेश आहे.

लेखापरीक्षकांची जबाबदारी

3. आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे या आर्थिक स्टेटमेन्टवर मत व्यक्त करण्याची आमची जबाबदारी आहे. आम्ही इन्स्टिट्यूट ॲफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ॲफ इंडियाने जारी केलेल्या स्टॅक्डर्ड ॲन ॲडिटिंग नुसार आमचे ॲडिट केले. त्या मानकांसाठी आवश्यक आहे की आम्ही नैतिक आवश्यकतांचे पालन करतो आणि आर्थिक स्टेटमेन्ट भौतिक चुकीच्या विधानांपासून मुक्त आहे की नाही याबद्दल जबाबदार आश्वासन प्राप्त करण्यासाठी ॲडिटची योजना आखतो आणि करतो.

4. ॲडिटमध्ये आर्थिक स्टेटमेंटमधील रक्कम आणि प्रकटीकरणाविषयी ॲडिट पुरावे मिळवण्यासाठी प्रक्रिया करणे समाविष्ट असते. निवडलेल्या कार्यपद्धती लेखापरीक्षकाच्या निर्णयावर अवलंबून असतात, ज्यात फसवणूक आणि त्रुटीमुळे आर्थिक स्टेटमेंटच्या भौतिक चुकीच्या विधानांच्या जोखमीचे मूल्यांकन समाविष्ट आहे. त्या जोखमीचे मूल्यमापन करताना, लेखापरीक्षक बँकेच्या तयारीसाठी आणि आर्थिक



स्टेटमेन्टच्या निष्पक्ष सादरीकरणाशी संबंधित अंतर्गत नियंत्रण विचारात घेतात जेणेकरून परिस्थितीत योग्य असलेल्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेची रचना करावी, परंतु संस्थेच्या प्रभावीतेवर मत व्यक्त करण्याच्या हेतूने नाही अंतर्गत नियंत्रण . ऑडिटमध्ये वापरलेल्या लेखा धोरणांची योग्यता आणि व्यवस्थापनाने केलेल्या लेखा अंदाजांच्या वाजवीपणाचे मूल्यांकन करणे, तसेच आर्थिक स्टेटमेन्टच्या एकूण सादरीकरणाचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे.

5. आमचा विश्वास आहे की आम्हाता मिळालेले लेखापरीक्षण पुरावे आमच्या लेखापरीक्षणाच्या मताला आधार देण्यासाठी पुरेसे आणि योग्य आहेत.

मत

6.आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि आम्हाता दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार. नोटससह आर्थिक स्टेटमेंट बॅकिंग रेग्युलेशन अँक्ट 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागू आहे), महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अँक्ट 1961 आणि नेशनल बँक फॉर अँग्रिकल्चरल अँड रुरल डेव्हलपमेंट (लागू आहे) द्वारे जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि आवश्यक माहिती देतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची आवश्यकता आहे आणि भारतात सामान्यतः स्वीकारल्या गेलेल्या लेखा तत्वाच्या अनुषंगाने खरे आणि निष्पक्ष दृश्य द्या:

- (a) 31 मार्च 2021 रोजी बँकेच्या स्थितीच्या ताळेबंदाच्या बाबतीत.
- (b) नफा आणि तोटा खात्याच्या बाबतीत, त्या तारखेला संपलेल्या वर्षाचा नफा;
- (c) कॅश फ्लो स्टेटमेंटच्या बाबतीत, त्या तारखेला संपलेल्या वर्षासाठी रोख प्रवाह.

इतर कायदेशीर आणि नियामक आवश्यकतांवर अहवाल

7. महाराष्ट्र सहकारी संस्था एक्ट 1960 आणि को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम 1961 आणि बॅकिंग रेग्युलेशन्स अँक्ट १९४९ च्या तरतुदींच्या तिसऱ्या वेळापत्रकाच्या अनुक्रमे “अ” आणि “ब” मध्ये ताळेबंद आणि नफा-तोटा खाते तयार केले गेले आहे.

8. आम्ही ते कळवतो

(A) आम्ही सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरण प्राप्त केले आहे, जे आमच्या सर्वोत्तम ज्ञान आणि विश्वासानुसार आमच्या ऑडिटच्या उद्देशासाठी आवश्यक होते आणि ते समाधानकारक असल्याचे आढळले आहे.

(B) आमच्या मते, कायद्याने आवश्यकतेनुसार खात्याची योग्य पुस्तके बँकेने आतापर्यंत ठेवली आहेत जशी ती त्या पुस्तकांच्या आमच्या परीक्षनातून दिसते आणि आमच्या लेखापरीक्षणाच्या हेतूसाठी योग्य परतावा बँक शाखांकडून प्राप्त झाला आहे.



(C) बँकेचे जे व्यवहार आमच्या लक्षात आले आहेत ते बँकेच्या अधिकारात आहेत.

(D) या अहवालाद्वारे हाताळलेली ताळेबंद आणि नफा आणि तोटा खाते खात्याच्या पुस्तकांशी आणि परताव्याशी सहमत आहेत.

(E) बँकेला लागू असलेल्या लेखाविषयक मानके हिशेब तत्वांनुसार भारतात सामान्यतः स्वीकारल्या गेलेल्या मानकांशी सुसंगत आहेत.

9. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 च्या नियम 69 (6) नुसार आवश्यकतेनुसार, आम्ही त्या नियमाच्या कलम (a) ते (f) मध्ये नमूद केलेल्या बाबीवर बँकेला लागू असलेल्या मर्यादेपर्यंत अहवाल देतो.

a. आमच्या लेखापरीक्षण दरम्यान, आम्ही सामान्यतः असे व्यवहार पाहिले नाहीत जे कायद्याच्या तरतुदी, नियम किंवा बँकेच्या उपविधीच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून येते.

b. आमच्या लेखापरीक्षण दरम्यान, आम्हाला आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात असलेले साहित्य आणि महत्वपूर्ण व्यवहार आढळले नाहीत.

c. बँकेनी दिलेली कर्जे आणि अँडव्हान्स खालील वसुलीबाबत संशयास्पद असल्याचे दिसून येते ज्याच्या मध्ये

रु- 216.03 लाख तरतूद केलेली असून प्र॒श्नेशियल नॉर्म्स (आयआरएसी) नुसार संशयास्पद आणि तोटा मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केले गेलेले कर्ज पुर्वप्राप्तिसाठी संशयास्पद मानली जाते:-

श्रेणी	31.03.2021 रोजीची थकबाकी (लाखांमध्ये)	श्रेणीतील खात्यांची संख्या	शेरा
संशयास्पद मालमत्ता	268.64	88	रु. 216.03 ची तरतूद या प्रगतीविरुद्ध केले गेले आहे, याशिवाय या मालमत्ताना मूर्त सुरक्षेद्वारे देखील पाठिंबा आहे.
मालमत्ता गमावणे	19.95	03	

d. आम्हाला प्रदान केलेल्या माहितीनुसार, संचालक, त्यांचे नातेवाईका च्या आणि फर्म ज्यांच्यामध्ये ते किंवा त्यांचे विशिष्ट नातेवाईक इच्छुक आहेत त्यांच्या नावे थकित कर्ज आणि अँडव्हान्स 31.03.2021 रोजी रु. 104.07 लाख अनुज्ञेय नियमानुसार मुदत ठेवीच्या सुरक्षेच्या बदल्यात आहेत.

e. आरबीआयने जारी केलेल्या दिशानिर्देश सूचनांचे कोणतेही उल्लंघन आम्हाला आढळले नाही कारण बँकेने नेशनल बँक ऑफ अँग्लीकल्न्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट कझून ठेवी स्वीकारल्या नाहीत किंवा सबसिडी घेतलेली नाही, त्या बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या उल्लंघनबाबत आमच्या टिप्पण्या मागवल्या जात नाहीत.



f. आमच्या सर्वोत्तम माहिती आणि माहितीनुसार, रजिस्ट्रारने इतर कोणत्याही बाबी निर्दिष्ट केल्या नाहीत, ज्यांना या नियमांतर्गत अहवाल देणे आवश्यक आहे.

10. आम्ही पुढे अहवाल देतो की ऑडिट अंतर्गत वर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष 2020-2021; बँकेला "A" ग्रेड वर्गीकरण देण्यात आले आहे.

ठिकाण: -नागपूर साठी,

तारीख: -31.08.2021

CMK आणि असोसिएट्स

सनदी लेखापाल

FRN क्रमांक 139851W

सीए कपिल चंदवानी

भागीदार

M. NO 162416





साधना सहकारी बैंक लि.

मुख्य कार्यालय: 504, दुसरा मंजला, दयानंद पार्क के पास, जरिपटका नागपुर - 440014.

AGENDA NO 6

BUDGETED ESTIMATES FOR THE YEAR 2021-22

DETAILS OF VARIANCES IN ACTUAL EXPENDITURE INCURRED OVER THE BUDGET EXPENDITURE FOR THE YEAR 2020-2021

SN	PARTICULARS	Budgeted 2020-2021	Actual 31.03.2021	Difference	Budgeted 2021 - 2022
{A} INCOME					
1]	INTER EAR ON ADV	1050	1039.74	-10.26	1081.75
2]	INTER REC ON INV	190	203.49	13.49	200.00
3]	INTT RES ON GOV	190	195.56	5.56	200.00
4]	COM & EXC RECE	1	0.38	-0.62	1.00
5]	OTHER INCOM	140	152.92	12.92	170.00
	TOTAL	1571.00	1592.09	21.09	1652.75
{B} EXPENDITURE					
1]	INTT PAID ON DEPSIT	850	784.73	-65.27	850.00
2]	COM & EXC PAID	2	0.94	-1.06	2.00
3]	DIRECTORS FEES& ALLO	4	2.20	-1.80	4.00
4]	RENT LIGHT AND TAX INSU	70	57.40	-12.60	70.00
5)	LEGAL CHARG	3	0.64	-2.36	3.00
6)	SALARIES & ALLOW	440	409.40	-30.60	410.00
7}	POSTEG TELI	5	1.52	-3.48	3.00
8}	AUDIT FEES	8	6.27	-1.73	8.00
9}	DEPRECITION	96	91.02	-4.98	90.00
10}	STATIOARY	4	3.42	-0.58	4.00
11}	ADVERTISMENT	4	3.19	-0.81	5.00
12}	PROVITION PA &NPA	40	24.79	-15.21	50.00
13}	OTHER PROVISION	5	1.49	-3.51	7.00
14}	OTHER EXPENSES	85	134.52	49.52	110.00
15)	PROV. FOR FRAUD	5.6	0.00	-5.60	0.00
	TOTAL	1621.60	1521.53	-100.07	1616.00
	PROFIT BEFORE TAX (A-B)	-45.00	70.56	121.16	36.75
	(-) PROVITION FOR TAX	0.00	23.38		11.46
	NET PROFIT	-22.73	47.18	69.91	25.29

ESTIMATES CAPITAL EXPENDITURE FOR THE YEAR 2021-2022

Particulars	Budget 2020-2021	Cap. Exp. Incurred during 2020- 2021	Difference	Cap.Exp. Proposed for the Year 2021 - 2022
Land & Building	50.00	53.62	3.62	25.00
Computers (Hardware & Softw	10.00	6.16	-3.84	20.00
Coolers	0.00	14.92	14.92	10.00
Electrical	2.00	53.43	51.43	15.00
Generator / Inverter/Solar	0.00	11.11	11.11	25.00
Furniture & Fixtures	20.00	51.78	31.78	25.00
Plant & Machinery	0.00	0.00	0.00	0.00
	82.00	191.02	109.02	120.00



साधना सहकारी बैंक लि .

मुख्य कार्यालय : ५०४, दुसरा मजला, दयानंद पार्क के पास, जरीपटका, नागपुर-४४००१४

ANNEXURE – A

NAME OF THE BANK	: SADHANA SAHAKARI BANK LTD.	
HEAD OFFICE ADDRESS	: 504, 2 nd Floor, Near Dayanand Park, Jaripatka, Nagpur -440014	
DATE OF REGISTRATION	: 16-03-1984	
DATE & NO. OF RBI	: U.B.D. MH-396 P DATE : 05-07-1984	
LICENCE		
JURISDICTION	: NAGPUR DISTRICT	
ITEMS	AMOUNT IN LACS 2021	
No. Of Branches Including Head Office	6 (Six)	
Membership	Regular	9150
	Nominal	1364
Paid Up Share Capital	479.25	
Total Reserve & Fund		
Deposits	Saving	4574.78
	Current	1383.25
	Fixed	9594.81
	Secured	9925.16
	Unsecured	453.55
	Total % To Priority Sector	58.57
	Total & To Weaker Section	9.68
Investment	4793.74	
Borrowing Against FDR In Public Sector Bank		
Overdue % (Percentage)	3%	
Audit Classification	"A"	
Profit For The Years	47.18	
Employees	Officers	26
	Clerks	31
	Other Staff	15
Working Capital	1730.14	

Note : The Above Information Is Published As Per Circular No. UBD/D.H./AR/Inform/92 Date 30-05-1992 From The Commissioners & Register Co-Operative Societies Maharashtra State, Pune -1



साधना सहकारी बैंक लि .

मुख्य कार्यालय : ५०४, दुसरा मजला, दयानंद पार्क के पास, जरीपटका, नागपुर-४४००१४

DISCLOSURE AS PER RBI GUIDELINES

Amt (in crores)

Sr.No	PARTICULARS	31.03.2020	31.03.2021
1	Capital to Risk Weighted Assets Ratio	15.57%	13.39%
2	Movement in CRAR: <ul style="list-style-type: none"> a. Total Capital Funds b. Risk Weighted Assets 	11.46 75.74	12.06 93.04
3	Investments (Only SLR) <ul style="list-style-type: none"> a. Book Value b. Face Value c. Market Value 	25.49 25.49	28.62 24.20
4	Advances against <ul style="list-style-type: none"> a. Real Estate b. Construction Business c. Housing 	16.54	17.70
5	Advances against share & debentures	-----	-----
6	Advances to directors, their relatives, companies/firms in which they have interests against FDR's <ul style="list-style-type: none"> a. Fund Based b. Non-fund based (Guarantees, L/C, etc.) 	1.78	1.24
7	Average cost of deposits	5.65	
8	NPAs <ul style="list-style-type: none"> a. Gross NPAs b. Net NPAs c. Percentage of Gross NPA to Total advance d. Percentage of Net NPA to Net Advance 	4.80 2.94 5.53 3.46	3.95 1.79 3.81 1.77
9	MOVEMENT OF NPAs:		
	1) Net NPAs to Net Advances (%)	3.46	1.77
	2) Movement of Gross NPAs: <ul style="list-style-type: none"> a. Opening Balance b. Add: Additions c. Less: Reduction d. Closing Balance 	2.75 2.82 0.77 4.80	4.80 1.07 1.92 3.95
	3) Movement of Net NPAs: <ul style="list-style-type: none"> a. Opening Balance b. Add: Additions c. Less: Reduction d. Closing Balance 	1.29 -- 1.65 2.94	2.94 -- 1.15 1.79
	4) Movement of Provisions for NPAs (excluding provision for standard assets) <ul style="list-style-type: none"> a. Opening Balance b. Provision made during the year (including prov. Released/exchange fluctuations) c. Write off/Write back of excess provisions d. Closing Balance 	1.46 0.40 ---- 1.86	1.86 0.30 ---- 2.16



साधना सहकारी बैंक लि .

मुख्य कार्यालय : ५०४, दुसरा मजला, दयानंद पार्क के पास, जरीपटका, तांगपुर-४४००१४

DISCLOSURE AS PER RBI GUIDELINES

Amt (in crores)

Sr.No	PARTICULARS		
10	Profitability <ul style="list-style-type: none"> a. Interest income as a percentage of working funds b. Not- interest income as a percentage of working funds c. Operating profit as percentage of working funds d. Return of Assets e. Business (Deposits + Advances) per employee f. Profit per employee 	3.48 0.01 2.45 0.30 2.94 0.49	3.78 0.88 0.41 3.34 3.60 0.65
11	Provisions: <ul style="list-style-type: none"> a. Provisions on NPAs required to be made b. Provisions on depreciation in investments c. Provisions on Standard Assets 	1.86 0.33	2.16 0.40
12	Movement in Provisions: <ul style="list-style-type: none"> 1. Towards NPAs <ul style="list-style-type: none"> a. Opening Balance b. Add: Provision made c. Less: Provision Reversed d. Closing Balance 2. Towards depreciation on investments <ul style="list-style-type: none"> a. Opening Balance b. Add: Provision made c. Less: Provision Reversed d. Closing Balance 3. Towards Standard Assets <ul style="list-style-type: none"> a. Opening Balance b. Add: Provision made c. Less: Provision Reversed d. Closing Balance 	1.46 0.40 --- 1.86 NIL 0.33 --- --- 0.33	1.86 ---- 0.10 2.16 NIL 0.33 0.06 --- 0.39
13	a. Foreign currency Assets b. Foreign currency Liabilities		
14	PAYMENT OF DICGC Insurance		
	1 . Period up to: <ul style="list-style-type: none"> a. Deposit Assessable b. Premium Amount c. Paid on 	30.09.2020 146.69 10.00 14.05.2020	136.83 10.38 12/11/2020
	2 . Period up to: <ul style="list-style-type: none"> a. Deposits Assessable b. Premium Amount c. Paid on 	31.03.2020 136.20 0.09 22.11.2019	31.03.2021 156.39 11.07 25/05/2021
15	Penalty imposed by RBI	---	
16	Provision made due to Covid -19 package vide RBI circular RBI/2019-20/220 DOR No. BP.BC.63/21.04.48/2019-20 April 17, 2020: <ul style="list-style-type: none"> i) Amount in SMA/Overdue categories, where the moratorium/deferment was extended. ii) Amount where Asset classification benefit extended. iii) Provision made during the financial year through allocation of profit. iv) Provision adjusted during the respective accounting period against slippages and the residual provisions. 	3.96 2.36 0.12 ---	0.00 0.00 0.00 ----